

**\*@shahajahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 24.07.2021\***

**\*SOG व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी,\***

**\*दवाइयों के वे-बिल पर अवैध शराब की तस्करी करते हुए अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार\***

**\*15 लाख रुपये कीमत की 161 पेटी हरियाणा मार्का अवैध अंग्रेजी शराब व टाटा 407 वाहन बरामद।\***

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में एवं श्री प्रवीण कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में नगर क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की रोकथाम एवं अन्य अवैध का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 23.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक, श्री हरपाल सिंह बालियान के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम एवं SOG टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से छापेमारी में नेशनल हाईवे-24 पर मिलेनियम स्कूल के सामने टाटा 407 रजि0नं0 UP83T0296 में भरी 161 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद करते हुए अभियुक्त राकेश पुत्र संतलाल नि0 मकान नं0 619 विकास नगर थाना लाइनपार बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध थाना कोतवाली चौक पर मु0अ0सं0 344/21 धारा 60/62 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 345/21 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किये गये। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को पेशी हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\***

1. राकेश पुत्र संतलाल नि0 मकान नं0 619 विकास नगर थाना लाइनपार बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा।

**\*बरामदगी का विवरण\***

1. कुल 1416 हाफ मैकडॉवेल नम्बर वन अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का जिन पर फर्जी वार कोड पडा है।
2. कुल 3072 क्वार्टर मैकडॉवेल नम्बर वन अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का जिन पर फर्जी वार कोड पडा है।
3. कुल 456 वोटल आफिसर च्वाइस व्लू अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का जिन पर फर्जी वार कोड पडा है।
4. कुल 161 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये।
5. एक TATA 407 लोडर UP83T0296
6. 02 वर्क फर्जी बिल्टी
7. एक वर्क फर्जी इशू आर्डर
8. 02 वर्क फर्जी बिल.

**\*अपराध करने का तरीका:-\***

अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि कस्बा सांपला जनपद झज्जर हरियाणा निवासी फौजी तथा उसका पार्टनर पप्पू हरियाणा से अवैध शराब तैयार कर गाडी में भरवाकर दवाईयां/ मेडिकल सम्बन्धी फर्जी विल्टी व वे-बिल तैयार कराकर देते थे तथा शराब गाडी में इस तरह से भरी होती थी कि देखने से लगे कि गाडी में मेडिकल सम्बन्धी इक्यूपमेण्ट/दवाईयां भरी हो। रास्ते में जब चौकिलग होती थी तो वह फर्जी वेविल व विल्टी दिखा देता था जिससे किसी को शक नहीं होता तथा यह शराब को मैं बिहार लेकर जा रहा था। प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग का विवरण\***

1. मु0अ0सं0 344/21 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 345/21 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

**\*पुलिस टीम का विवरण\***

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
2. व0उ0नि0 शिव बरन यादव थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री अजयवीर सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
4. उ0नि0 श्री रोहित कुमार SOG प्रभारी शाहजहाँपुर ।
5. हे0का0 137 सचिन कुमार थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
6. का0 1971 सोनवीर सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
7. हे0का0 329 राजा राम पाल सिंह जनपद शाहजहाँपुर ।
8. हे0का0 388 अमरजीत सिंह जनपद शाहजहाँपुर,
9. हे0का0 157 उदयवीर जनपद शाहजहाँपुर ,
10. का0 264 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जनपद शाहजहाँपुर,
11. का0 1435 दिलीप कुमार जनपद शाहजहाँपुर,
12. का0 1475 अजय कुमार जनपद शाहजहाँपुर,
13. का0 1255 कुशलपाल सिंह जनपद शाहजहाँपुर
14. का0 1805 प्रभात कुमार जनपद शाहजहाँपुर